

दिल्ली के बेगमपुर गांव का संसना

2655. श्री रामधारे पनिका :  
क्या निर्माण और आवास मंत्री यह  
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण  
दिल्ली में बेगमपुर गांव के संसने का खतरा  
है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्य-  
वाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या  
कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास  
मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क)  
तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही  
है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Research unit on Pond Ecology Etc.  
in Kakinada, A.P.

2656. SHRI V. KISHORE CHAND-  
RA S. DEO: Will the Minister of  
AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Govern-  
ment are considering a proposal to set  
up a separate Research Unit to study  
the different aspects of Pond ecology,  
Mono-culture and poly culture at  
Kakinada in Andhra Pradesh, in view  
of intensive development of Brackish  
Waters in the State; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF AGRICULTURE  
AND RURAL RECONSTRUCTION  
(SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a)  
and (b). The Central Government has  
no proposal to set up a separate  
Research Unit to study the different  
aspects of pond ecology, mono-culture  
and polyculture at Kakinada in  
Andhra Pradesh. However, the  
Indian Council of Agricultural  
Research has received a suggestion

from the Govt. of Andhra Pradesh  
(Forest and Rural Development  
Deptt.) in this regard. This proposal  
had highlighted the extent of available  
brackishwaters in coastal Andhra  
Pradesh and had indicated that the  
Govt. of Andhra Pradesh is contem-  
plating to develop these brackishwater  
areas. In view of this, the Andhra  
Pradesh Government had suggested  
the establishment of a separate  
Research Unit at Kakinada by ICAR  
to study the different aspects of pond  
ecology, mono-culture, polyculture  
etc. The Council had examined this  
suggestion of the Andhra Pradesh  
Government in the light of its own  
on-going research programmes in  
brackishwater fish farming in the  
same region. Apart from a Centre  
of the All India Coordinated Research  
Project on Brackishwater Fish Farm-  
ing located in that area the Central  
Institute of Fisheries Education is  
also having its farms in Kakinada where  
training and demonstration program-  
mes in brackishwater fish and prawn  
farming are being carried out. The  
State Deptt. could, therefore, adopt  
the technologies already available in  
that region. The Council could give  
technical assistance to the proposed  
programme which is essentially of  
developmental nature.

उर्वरकों में नाइट्रोजन का तत्व

2657. श्री राम अक्षय : क्या कृषि  
मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभिन्न भागों में  
उर्वरक कारखानों में उत्पादित उर्वरकों में  
नाइट्रोजन का तत्व अपेक्षित मात्रा में नहीं  
है; और

(ख) क्या अच्छी किस्मों के उर्वरकों की  
उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन  
कारखानों पर सरकार का कोई नियंत्रण है  
या वह उनका निरीक्षण करती है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन): (क) ऐसी कोई रपोर्ट नहीं मिली है कि देसी उर्वरक निर्माता उर्वरक तैयार करते समय नाइट्रोजन तत्वों की उतर्ना मात्रा का प्रयोग नहीं करते जिसकी निश्चित की गई है।

(ख) उर्वरक (नियंत्रण) अधिनियम 1957 में उर्वरकों की क्वालिटी की जांच करने तथा उर्वरकों की तैयारी व स्टोर करने के स्थानों का निरीक्षण करने की समुचित व्यवस्था मौजूद है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकार दिये गये हैं ?

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएँ

2658. श्री चतुर्भुज : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा जिले में बिलासी बांध परियोजना (किशनगंज क्षेत्र) और छठी परियोजना, भीम सागर परियोजना, हरिश्चन्द्र सागर परियोजना और प्रस्तावित मनोहर थाना परियोजना तथा झालावाड़ जिले की प्रस्तावित गागरिन परियोजना पर कुल खर्च के बारे में परियोजना-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन परियोजनाओं पर इस वर्ष कुल कितनी राशि खर्च की जा रही है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना कब पूरी हो जायेगी इस बारे में ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इनको प्रारम्भ करने की तारीख क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री

जियाउररहमान अंसारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

### विवरण

(केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	1979-80 तक किया गया व्यय (लाख पयों में)	1980-81 के दौरान प्रत्याशित व्यय (लाख रुपयों में)	जिस वर्ष परियोजना प्रारम्भ हुई	जिस वर्ष परियोजना पूरी हो गई
----------	-----------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------	------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	बिलासी	275	शून्य	5	1980-81	छठी योजना के अन्त तक।
2	छापी	650	शून्य	5	1980-81	सातवीं योजना